



HUDCO/CS//SE/2025

16<sup>th</sup> January, 2025

**Listing Department  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai – 400001  
SCRIP CODE: 540530**

**Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)  
Mumbai – 400051  
SCRIP CODE: HUDCO**

**Sub.: Newspaper publication regarding intimation of Record Date.**

Sir/Madam,

In compliance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copy of the Newspaper Publication(s) regarding intimation of Record Date.

यह आपकी जानकारी के लिए है। This is for your kind information.

धन्यवाद

भवदीय

**फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

विकास गोयल

कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर

Encl.: As above

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
आई एस ओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी  
कोर - 7ए, हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड,  
नई दिल्ली - 110003, दूरभाष : 011-24649610-21

**Housing and Urban Development Corporation Limited**  
(A Government of India Enterprise)  
**AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY**  
Core - 7 'A', HUDCO Bhawan, India Habitat Centre, Lodhi Road,  
New Delhi - 110003, Tel. : 011-24649610-21

**Follow us on**



**CIN : L74899DL1970GOI005276, GST : 07AAACH0632A1ZF, Visit us at : www.hudco.org.in**

**Building Assets for Viksit Bharat**



IN A FIRST, NAVY GETS 3 VESSELS SIMULTANEOUSLY

# India to play key role in global security: PM

EXPRESS NEWS SERVICE  
Mumbai, January 15

AS THREE FRONTLINE vessels were commissioned together into the Indian Navy, a historic first for the country, Prime Minister Narendra Modi said on Wednesday that India is going to play a major role in giving direction to "global security, economics and geopolitical dynamics". He also said the country works "in the spirit of development, not expansionism".

The vessels that have entered the Navy are the destroyer INS Surat, the last of the four Visakhapatnam-class stealth guided-missile destroyers; the frigate INS Nilgiri, the lead ship of a new class of seven stealth guided-missile frigates being built under Project 17 Alpha; and the submarine INS Vagsheer, the sixth and the last of the first batch of the Kalvari-class diesel-electric attack submarines. Speaking at the commissioning ceremony at the naval dockyard in Mumbai, Modi called it a "giant leap forward" in the Navy's empowerment and self-reliance.

Describing it as a historic day, he said, "Today's programme connects our glorious heritage with the aspirations of the future. We have a rich history in long sea voyages, commerce, naval defence, ship industry. Taking inspiration from its history, today's India is becoming a major maritime power... The platforms launched today also reflect this. For example, our Nilgiri is dedicated to the maritime power of the Chola dynasty. The Surat warship reminds us of the period when India was connected to West Asia through the ports of Gujarat. Along with these ships, the Vagsheer submarine is being commissioned today. A few years ago, I had the opportunity to participate in the commissioning of Kalvari, the first submarine of the P75 class. Today, I have had the privilege of



Guided-missile destroyer INS Surat, frigate INS Nilgiri, and submarine INS Vagsheer at the naval dockyard in Mumbai on Wednesday  
EXPRESS PHOTO: AMIT CHAKRAVARTY

## 'Wars will become more violent & unpredictable'

**DEFENCE MINISTER RAJNATH** Singh on Wednesday said the emergence of "non-state actors" in many countries and their resorting to terrorism is a "matter of concern". In his address at an event in Pune to mark the 77th Army Day, he also said conflicts and wars will become more violent and unpredictable. He said that for maintaining peace, strength is essential, and self-reliance is necessary for strategic autonomy.



Rajnath Singh  
He said the government is striving to strengthen the armed forces by equipping them with latest weapons and platforms. —PTI

commissioning the sixth submarine of this class... These new frontier platforms will give new strength to both India's security and progress. "Today, India is being recognised as a reliable and responsible partner across the world and especially in the Global South. India works in the spirit of development, not expansionism. India has always supported an open, secure, inclusive and prosperous Indo-Pacific region.

Therefore, when it came to the development of countries bordering the sea, India gave the mantra SAGAR — Security And Growth for All in the Region. We moved ahead with the vision of SAGAR... India considers the defence and security of this entire region as its responsibility," he said. In shaping global security, economics and geopolitical dynamics, a maritime nation like India is going to play a huge role, he added.

## Apparel retail may expect recovery in H2

RAGHAV AGGARWAL  
New Delhi, January 15

THE APPAREL RETAIL sector in India is likely to show signs of recovery in the second half of FY25 due to improved consumer finances and a higher number of wedding days, India Ratings and Research (Ind-Ra) said on Wednesday.

The agency said that in the first half of FY25, the industry witnessed lower store additions and negative same-store sales growth owing to a tepid consumption demand and high-base effect due to revenge shopping after the Covid-19 pandemic.

This resulted in a moderation in the revenue growth.

"We expect a recovery in revenue growth over 2HFY25/FY26, on the back of improving consumer financial health, a higher number of wedding days and favourable monsoons," said Adarsh Gutha, associate director, corporate ratings, Ind-Ra.

## Mandi prices of soyabean below MSP

DESPITE THE GOVERNMENT purchasing a record 1.3 million tonne (MT) of soyabean from farmers in key producing states at the minimum support price (MSP), its mandi prices continue to rule below the benchmark.

Sources told FE that the average mandi price of soyabean at present was marginally below the MSP of ₹4,892/quintal announced for the 2024-25 season (July-June).

Agencies such as Nafed and NCCF will continue soyabean purchase till the end of the month and may procure a record 1.5 MT this season. An official said the government intervention has helped better price realisation by farmers. A glut in global supplies has hit domestic prices. —FE BUREAU

# Indigenous 'bullet train' projects may run into financing hurdles

MANU KAUSHIK  
New Delhi, January 15

WHILE THE WORK on an indigenous prototype of high-speed rolling stock has boosted hopes of "Indian bullet trains" hitting the tracks over the next few years, the proposed seven high-speed rail projects could face serious financing hurdles, officials said.

While the ongoing Mumbai-Ahmedabad high-speed rail (MAHSR) project is being funded by the government of Japan through Japan International Cooperation Agency (JICA), finances for the new set of projects are yet to be tied up. The use of indigenous trainsets is expected to reduce costs of these projects compared to MAHSR, which employs Shinkansen high-speed technology. Yet, financing options seem limited at this juncture, according to sources.

International funding for the new projects would come at a much higher cost than JICA loans for MAHSR, they said. "In case of MAHSR, the JICA provided loans at a nominal interest of 0.1% because the Japanese were selling their Shinkansen technology to India. It's likely that international agencies would fund these seven projects at higher interest rates or ask India to

## SPEED BUMPS

■ Multilateral agencies may ask India to purchase rolling stock from foreign firms for its proposed high-speed rail corridors

■ The ongoing Mumbai-Ahmedabad high-speed project is funded through Japan International Cooperation Agency



abandon the plans for indigenous high-speed trainsets, and buy rolling stock from global companies like Siemens. Otherwise, what is the incentive for them to fund such large projects?" the official said.

The railways, with little operational surplus with it and relying heavily on budget funds for its massive capital expenditure requirements, has no option but to resort to multilateral lending for the high-speed rail projects. "The railways cannot fund these projects on its own and will need assistance from international agencies like Asian Development Bank and KfW Development Bank," an official said on condition of anonymity.

As part of the national infrastructure project (NIP), the ministry of railways has identified seven high-speed corridors — Delhi-Varanasi (813 km), Delhi-Ahmedabad

(872 km), Mumbai-Nagpur (767 km), Mumbai-Hyderabad (671 km), Chennai-Bengaluru-Mysore (464 km), Delhi-Chandigarh-Amritsar (476 km), and Varanasi-Howrah (752 km). The detailed project reports on at least four of these projects have been submitted.

Though the ministry has categorically said that the HSR projects are highly capital-intensive, the decision to sanction any such project depends on many factors such as outcome of detailed project report (DPR), techno-economic feasibility, availability of resources and financing options. Officials said the seven projects are likely to get priority since the Bharatiya Janata Party's election manifesto promised to expand the bullet train services across the country. Recently, Prime Minister Narendra Modi said India would soon get its

first bullet train while emphasising the country's growing demand for high-speed trains. "The MAHSR will serve as a pilot project as the government is planning to roll out more high-speed rail projects to achieve its Viksit Bharat mission," he said.

The MAHSR project is being executed with official development assistance loan from JICA at an interest of 0.1%. The 81% of the construction and procurement costs are funded by JICA while the remaining financial burden is being shared among the central government, and the governments of Maharashtra and Gujarat.

Due to the funding from JICA, the MAHSR corridor will be using the Japanese Shinkansen high-speed technology which costs almost double of the local rolling stock prototypes that will be manufactured by state-owned BEML. In October last year, the Integral Coach Factory awarded a contract for design, manufacturing and commissioning of two high-speed trainsets to BEML.

The two trainsets, comprising eight cars each and capable of reaching a speed of 280 km per hour, will cost ₹866.87 crore with each car priced at ₹27.86 crore. The first prototype, to be developed in the next two years, will undergo trials on the Mumbai-Ahmedabad corridor.

**Housing and Urban Development Corporation Ltd.**  
(A Govt. of India Enterprise)  
CIN: L74899DL1970GOI005276, GST NO. 07AAACH0632A12F  
Registered Office: HUDCO Bhawan, India Habitat Centre, Core-7A, Lodhi Road, New Delhi-110003, Phone: 011-24649610-21  
Email: cswhudco@hudco.org, Website: www.hudco.org.in

**NOTICE**  
Notice is hereby given pursuant to provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that Company has fixed **30<sup>th</sup> January, 2025** as Record date for the payment of Interim Dividend for the financial year 2024-25, if declared by the Board of Directors in their meeting scheduled to be held on Wednesday, the 22<sup>nd</sup> January, 2025.  
The interim dividend will be paid to members, whose names appear in Register of Members/Beneficial owners as on Record date i.e. **30<sup>th</sup> January, 2025**.  
To claim exemption from deduction of tax at source including deduction at concessional rates, shareholders are required to submit the requisite documents as prescribed under the Income Tax Act, 1961 at [dividend.tax@hudco.org.in](mailto:dividend.tax@hudco.org.in) only latest by 3<sup>rd</sup> February, 2025. No communication will be accepted thereafter.  
The detailed communication regarding deduction of tax will be made available to the shareholders in due course.  
For Housing and Urban Development Corporation Ltd.  
Date: 15<sup>th</sup> January, 2025  
Place: New Delhi  
Sd/- Vikas Goyal  
Company Secretary

**Container Corporation of India Ltd.**  
NSIC New MDSP Building, 2<sup>nd</sup> Floor, Okhla Ind. Estate (Opp. NSIC Okhla Metro Station), New Delhi-110020  
e-TENDER for selection of Logistics Associate (LA) for setting up a facility for storage and loading/unloading of Liquid / Gas / Bulk Cargo at GCT MMLP Dahej.  
Tender No: CON/Dahej/LA/2025/e-84497  
Date of Sale (On Line): From 16.01.2025 at 15:00 hrs. to 05.02.2025 (upto 16:00 hrs.)  
Pre-Bid Meeting: On 22.01.2025 at 12:00 hrs.  
Last Date & Time of submission: On 06.02.2025 up to 16:00 hrs.  
Date & Time of Opening: On 07.02.2025 at 15:30 hrs.  
For eligibility criteria and other details please log on to [www.concorindia.com](http://www.concorindia.com) or [eprocure.gov.in](http://eprocure.gov.in) or [www.tenderwizard.com/CCIL](http://www.tenderwizard.com/CCIL). For complete details log on to [www.tenderwizard.com/CCIL](http://www.tenderwizard.com/CCIL). Bidders are requested to visit the website regularly.  
Area Head/Area-III

**Wow! A chance to win a new car by just sharing a few details.**

**Wait! Don't enter any details on unknown pop-ups. They can be misused by scammers!**

**Beware of tempting pop-ups! Scammers may steal and misuse your personal details.**

**RBI kehta hai... Smart bano, Cool raho**

Issued in public interest by भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA www.rbi.org.in

For more details, visit <https://rbikehtahai.rbi.org.in/up>  
For feedback, write to [rbikehtahai@rbi.org.in](mailto:rbikehtahai@rbi.org.in)

**पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank**  
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

Ease your life with **Amazing Offers**

**PSB 555 DAYS FD**  
ROI 8.10% p.a.  
(Super Senior Citizen)

**Just a Scan away**  
Sanction in just 30 mins\*

**E-APNA VAHAN**  
Speed Meets Convenience  
To Avail Just Scan

**E-APNA GHAR**  
Loan in Minutes, Home for Life Time  
To Avail Just Scan

#Subject to Verifications, Legal/Valuation Reports, wherever applicable.

**Reviewed Un-audited Financial results for the Quarter/ Nine Months ended 31<sup>st</sup> December, 2024**

Particulars	Quarter ended 31.12.2024 [Reviewed]	Quarter ended 30.09.2024 [Reviewed]	Quarter ended 31.12.2023 [Reviewed]	Nine Months ended 31.12.2024 [Reviewed]	Nine Months ended 31.12.2023 [Reviewed]	Year ended 31.03.2024 [Audited]
<b>Operating Profit</b> Rs.484Cr. (74.73%)						
Total income from operations	326937	309786	285271	921325	802123	1091545
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	37465	30731	18070	89518	71019	93698
<b>Net Profit</b> Rs.282Cr. (147.37%)						
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	37465	30731	18070	89518	71019	93698
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	28196	23959	11431	70305	45607	59542
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))						
<b>NIM</b> 2.78% (24 bps)						
Paid up Equity Share Capital	677779	677779	677779	677779	677779	677779
Reserves (excluding Revaluation Reserve)						768925
Securities Premium Account	313198	313198	313198	313198	313198	313198
Net worth*	923441	892067	745351	923441	745351	783578
Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	606975	263716	199848	606975	199848	243385
Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Debt Equity Ratio**	0.66	0.30	0.27	0.66	0.27	0.31
<b>Gross NPA</b> 3.83% ((187) bps)						
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
1. Basic :	0.42	0.35	0.17	1.04	0.67	0.88
2. Diluted:	0.42	0.35	0.17	1.04	0.67	0.88
Capital Redemption Reserve	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Debenture Redemption Reserve	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Interest Service Coverage Ratio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Debt Service Coverage Ratio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Net NPA</b> 1.25% ((55) bps)						
(Y-o-Y Basis)						

\* After considering the impact of valuing the Non-interest bearing Recapitalization Bonds at Fair Value for the Quarter / Nine Months ended 31.12.2023 and Year ended 31.03.2024.  
\*\*Total debts represent total borrowings of the Bank. Borrowings represent debts due for more than one year.

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Nine Months Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Nine Months Financial Results are available on Stock Exchange website (BSE: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and NSE: [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and website of the Bank (<https://punjabandsindbank.co.in>)  
2. Information relating to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income is not furnished as Ind AS is not yet applicable on banks.

For and on behalf of Board of Directors  
Place : New Delhi Date : 15.01.2025  
Rajeeva EXECUTIVE DIRECTOR  
Ravi Mehra EXECUTIVE DIRECTOR  
Swarup Kumar Saha MANAGING DIRECTOR & CEO

**TOLL FREE NO.: 1800 419 8300**  
Do not share your Internet Banking details, such as, user ID/password or your credit card number/CVV/OTP with anyone either over phone or through email.  
Email : [ho.customerexcellence@psb.co.in](mailto:ho.customerexcellence@psb.co.in) | Website : <https://punjabandsindbank.co.in>





## खबर कोना

## कांग्रेस ने पांच और उम्मीदवार घोषित किए

नई दिल्ली, 15 जनवरी (ब्यूरो)।

कांग्रेस ने बुधवार देर रात विधानसभा चुनाव के लिए पांच उम्मीदवारों को एक और सूची जारी कर दी। इसमें बवाना से सुरेंद्र कुमार, रोहिणी से सुमेश गुप्ता, करोल बाग से राहुल धनक, तुगलकाबाद से वीरेंद्र बिधूड़ी और बदरपुर से अर्जुन भंडाना शामिल हैं। सुरेंद्र कुमार बवाना से ही विधानसभा से चुके हैं। कांग्रेस की ओर से अब तक 70 विधानसभा सीटों में से 68 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। पार्टी की ओर से मंगलवार को भी 16 प्रत्याशियों को सूची जारी की गई थी। पांच फरवरी को होने वाले मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है। मतगणना आठ फरवरी को निर्धारित है।

## भाजपा ने पोस्टर जारी कर अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 15 जनवरी।

विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली के स्कूलों में लगातार मिल रही धमकी के मामले में दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद भाजपा अब आप और ज्यादा हमलावर हो गई है। इसके बाद अब संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की भी विधानसभा चुनाव में प्रवेश (एंट्री) हो गई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा नेता आमने सामने आ गए हैं। भाजपा ने सोशल मीडिया अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बुधवार को उनके फोटो के साथ 'दहशत फैलाते हैं' पोस्टर जारी किया।

## आप के नेता दिल्ली का माहौल बिगाड़ने का काम करते रहते हैं : सचदेवा

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 15 जनवरी।

आम आदमी पार्टी के अनेक रूप हैं और उनमें से एक रूप उससे जुड़े नेता और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के लोगों का है जो दिल्ली का सामाजिक ताना बाना और सुरक्षा वातावरण को बिगाड़ने के लिए काम करते रहते हैं। ये आरोप दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार को लगाए। सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एवं आतिशी की ओर से कुछ दिनों से मंदिर या झुग्गी तोड़ने को लेकर लगातार झूठ बयान दिए जा रहे हैं जोकि पूरी तरह से निराधार हैं।

## हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा

## मतदाता सूची में नामों के दोहराव संबंधी याचिका पर विचार करें

नई दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को निर्वाचन आयोग (ईसी) से कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी की मतदाता सूची में नामों के कथित दोहराव पर चिंता जताने वाली याचिका पर उचित स्तर पर विचार करे और ऐसे तकनीकी उपकरण अपनाए जिससे इस तरह के दोहराव को खत्म करने में मदद मिले।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जब तक आयोग उनकी याचिका पर विचार करेगा, तब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके होंगे। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'हर चुनाव से पहले ऐसे मामले आते हैं।' पीठ में न्यायमूर्ति तुषार राव गंडेला भी शामिल थे।

पीठ ने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन की एक प्रक्रिया है। इस स्तर पर ऐसा नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मुद्दे से पूर्व मुख्यमंत्री भी व्यथित हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने कहा कि याचिका में कथित दोहराव का एक भी उदाहरण नहीं दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए



आवश्यक प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर विचार किया है। अदालत ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा कि उन्होंने कहा कि दो उपकरण हैं। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए उपकरण बेहतर हैं, तो यह ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चलता है कि ये उपकरण बेहतर हैं, तो इस पर विचार करें। हम आपसे केवल यह कह रहे हैं कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल बंद नहीं करें।

अदालत ने आदेश दिया कि इसके मद्देनजर, हम प्रतिवादिनों (निर्वाचन आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी) को याचिका में दिए गए कथनों पर उचित चरण में विचार करने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा करना उचित समझते हैं। यह कहने की आवश्यकता

अदालत ने कहा कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर चुनाव आयोग को ऐसे तकनीकी उपकरण मिलते हैं जो सूची में नामों के दोहराव को हटाने में आयोग की सहायता करेंगे, तो उन्हें अपनाया जाएगा।

नहीं है कि अगर आयोग को ऐसे तकनीकी उपकरण मिलते हैं जो नामों के दोहराव को हटाने में आयोग की सहायता करेंगे, तो उन्हें अपनाया जाएगा।

याचिकाकर्ता राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ (एक राजनीतिक दल) ने अपनी जनहित याचिका में आरोप लगाया कि दिल्ली की मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नामों का दोहराव हुआ है और प्रविष्टि में शामिल ऐसे नामों को हटाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि कुछ ऐसे तकनीकी उपकरण हैं जिनका उपयोग दोहराव का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए याचिका में निर्वाचन अधिकारियों को ऐसे उपकरणों को अपनाने एवं ऐसी प्रविष्टियों को हटाने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

## भाजपा के लिए मोदी, सात मुख्यमंत्री भी मांगेंगे वोट

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 15 जनवरी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपने 40 प्रमुख प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा योगी आदित्यनाथ सहित अपने सात मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा की।

इस सूची में पूर्वांचली से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के कई प्रमुख चेहरे भी शामिल हैं।

इनमें भोजपुरी अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम शामिल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से ताल्लुक रखने वाले पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता हैं।

विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल

खट्टर, पीयूष गोयल, धर्मेन्द्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी और गिरिराज सिंह के नाम शामिल हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों के रूप में दिल्ली में प्रचार करने के लिए सात मुख्यमंत्रियों में देवेंद्र फडणवीस, हिमंत बिस्व सरमा, पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा, नाथ सिंह सैनी और मोहन यादव शामिल हैं। दिल्ली के सभी सात सांसद भी सूची में शामिल हैं। दिल्ली भाजपा प्रभारी बैजयंत पांडा, सह-प्रभारी अलका गुर्जर और पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा भी चुनाव के लिए स्टार प्रचारक होंगे।

## आप ने नरेला और हरि नगर विधानसभा के प्रत्याशी बदले

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 15 जनवरी।

आम आदमी पार्टी (आप) ने नरेला और हरि नगर विधानसभा सीट पर घोषित उम्मीदवारों को बदल दिया है। आप की ओर से बुधवार को जारी नई सूची में नरेला से मौजूदा विधायक शरद चौहान और हरि नगर से सुरिंदर सेतिया को उम्मीदवार बनाया है। आप ने इससे पहले नरेला से दिनेश भारद्वाज को

टिकट दी थी। वहीं, हरि नगर से मौजूदा विधायक राजकुमार हिल्लों को टिकट दी थी, अब उनकी जगह पार्टी ने सुरिंदर सेतिया को चुनावी मैदान में उतारा है।

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का एलान कर चुकी है। अब जब नामांकन पत्रों दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है तो पार्टी ने ठीक दो दिन पहले अपने दो प्रत्याशियों को बदलने का निर्णय लिया है।

## केजरीवाल के पास 1.73 करोड़ की संपत्ति, पर नहीं है कोई गाड़ी

भूपेन्द्र पांचाल

नई दिल्ली, 15 जनवरी।

नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा प्रत्याशी प्रवेश साहिब सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के वक्त दोनों प्रत्याशियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा किया है जिसमें प्रवेश वर्मा जहां कुल 90 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं जबकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कुल संपत्ति 1.73 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। केवल उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के पास एक मारुति बलेंनो कार है। इतना ही नहीं केजरीवाल के पास कोई भारी भरकम नकद

भाजपा के प्रवेश वर्मा के पास कुल 90 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति।

केजरीवाल के पास 50 हजार रुपए नकद तो वर्मा के पास 2.20 लाख रुपए।

नहीं है। चुनावी हलफनामा के मुताबिक उनके पास केवल 50 हजार रुपए नकद राशि है।

अरविंद केजरीवाल के कुल चल अचल संपत्ति पर नजर डाली जाए तो उनके पास केवल चल संपत्ति 3.46 लाख रुपए है। अचल संपत्ति के रूप में वह एक करोड़ 70 लाख रुपए के मालिक हैं। आप प्रमुख केजरीवाल की कुल संपत्ति 1,73,46,848 रुपए है। वहीं, उनकी पत्नी सुनीता भी एक करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की मालिक हैं।

आगर भाजपा प्रत्याशी प्रवेश साहिब सिंह की चल अचल संपत्ति की बात करें तो उनके पास 90 करोड़ रुपए के चल अचल संपत्ति है।

उनकी आय चार साल में कई गुना बढ़ी है। साल 2019-20 में आयकर रिटर्न में सिंह ने 92 लाख 94 हजार 980 रुपए की आय दिखाई थी, जो अब बढ़ कर अब 19,68,34,100 रुपए दिखाई गई है।

उनकी पत्नी स्वाति सिंह की आय में भी बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2019-20 में स्वाति सिंह ने आयकर रिटर्न में 5,35,570 रुपए की आय दिखाई थी जो साल 2023-24 में बढ़कर 91,99,560 रुपए हुई है।

नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामा के मुताबिक प्रवेश वर्मा के पास दो लाख 20 हजार रुपए की नकद राशि है। उनके बैंक खाते में 1,28,01,267 रुपए हैं। सभी निवेश और वांड आदि की मिलाकर चल संपत्ति 77,89,34,554 रुपए आंकी गई है। कृषि और व्यावसायिक भूमि को मिलाकर उनकी चल संपत्ति कुल 12.19 करोड़ रुपए है। इन सबको मिलाकर पूर्व सांसद के पास 90 करोड़ रुपए की संपत्ति है।

## फर्जी खबरों पर लगाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया पोर्टल

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 15 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गलत सूचना, दुष्प्रचार और फर्जी खबरों पर लगाव लगाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने बड़ा कदम उठाया है। सीईओ आर एलिस वाज ने फर्जी खबरों व गलत सूचनाओं के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए 'मिथक बनाम तथ्य' (मिथ वर्सेस फैक्ट्स) रजिस्टर जारी किया है। इस पहल का खास मकसद

हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएन: L74899DL1970G0005276, जीएसटी सं. 07AAACH0632A12F

पंजीकृत कार्यालय: हडको मवन, इडिया हॉटेल टेंटर, कोर-7ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 011-24649610-21

ईमेल: csw@hudco.org, वेबसाइट: www.hudco.org.in

सूचना

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, सूचना दी जाती है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम लाभांश के मुगलान के लिए रिपोर्ट तिथि के रूप में 30 जनवरी, 2025 तय की है, यदि निदेशक मंडल द्वारा बुधवार दिन, 22 जनवरी, 2025 को होने वाली उनकी बैठक में यह घोषित किया जाता है। अंतरिम लाभांश उन सदस्यों को दिया जाएगा, जिनके नाम रिपोर्ट तिथि अर्थात् 30 जनवरी, 2025 को सदस्यों/लाभार्थी के रजिस्टर में दर्ज हैं।

रियायती दरों पर कटौती सहित स्रोत पर कर कटौती से छूट का दावा करने के लिए, शेयरधारकों को आयकर अभिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षित दस्तावेज केवल dividend.tax@hudco.org.in पर 3 फरवरी, 2025 तक जमा करने होंगे। उसके बाद कोई भी सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी।

शेयरधारकों को कर कटौती की विस्तृत जानकारी यथासंभव उपलब्ध करा दी जाएगी।

हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेतु हस्ता./- विस्तार योग्य कंपनी सचिव

दिनांक: 15 जनवरी, 2025

स्थान: नई दिल्ली

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है

स्केन करें और लाभ उठाएं स्वीकृत केवल 30 मिनट में\*

आकर्षक ऑफर्स के साथ अपने जीवन को आसान बनाएं

ई-अपना वाहन ई-अपना घर

सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ स्केन करें।

#सत्यमेव, विधिक/मूल्यांकन रिपोर्ट के अधीन, जहाँ लागू हो।

कुल कारोबार वृद्धि 10.58% कुल अग्रिम वृद्धि 14.73% खुदरा अग्रिम वृद्धि 35.12% एवाइलएअई अग्रिम वृद्धि 17% निवल ब्याज आय 27.06%

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही/ नौ माह के लिए समीक्षित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

परिचालन लाभ	विवरण	समाप्त तिमाही					
		31.12.2024 (समीक्षित)	30.09.2024 (समीक्षित)	31.12.2023 (समीक्षित)	31.12.2023 (समीक्षित)	31.03.2024 (समीक्षित)	समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
₹484 करोड़ (74.73%)	परिचालनों से कुल आय	326937	309786	285271	921325	802123	1091545
	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवाददात्मक तथा/या असाधारण मदों से पूर्व)	37465	30731	18070	89518	71019	93698
	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवाददात्मक तथा/या असाधारण मदों के पश्चात)	37465	30731	18070	89518	71019	93698
	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवाददात्मक तथा/या असाधारण मदों के पश्चात)	28196	23959	11431	70305	45607	59542
	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए समेकित लाभ / (हानि) (कर के पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)]	677779	677779	677779	677779	677779	677779
	प्रदत्त सामान्य शेयर पूंजी	677779	677779	677779	677779	677779	677779
	आरक्षित निधियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)						768925
	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	313198	313198	313198	313198	313198	313198
	निवल मालियत*	923441	892067	745351	923441	745351	783578
	प्रदत्त ऋण पूंजी / अदत्त ऋण	606975	263716	199848	606975	199848	243385
	बकाया प्रतिदेय अधिमान शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ऋण इक्विटी अनुपात**	0.66	0.30	0.27	0.66	0.27	0.31
	प्रति शेयर अर्जन (प्रति ₹10 के) (जारी तथा बंद किए गए परिचालनों के लिए)						
	1. मूलमूल	0.42	0.35	0.17	1.04	0.67	0.88
	2. डाइव्यूटेड	0.42	0.35	0.17	1.04	0.67	0.88
	पूँजी मोचन आरक्षित निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
	व्याज चुकोती व्यापि अनुपात	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
	ऋण चुकोती व्यापि अनुपात	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

\*दिनांक 31.12.2023 को समाप्त तिमाही/नौ माह तथा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए उचित मूल्य पर खाल रहित पुनर्मूल्यांकन गैर-कर के मूल्यांकन प्रभाव पर विचार करने के पश्चात।

\*\*कुल ऋण, बैंक के कुल उधार को ध्यान में रखा जाता है। उधार, एक वर्ष से अधिक के लिए देय ऋण को ध्यान में रखा जाता है।

नोट-1: उक्त, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम-2015 के विनियम 33 तथा 52 के अंतर्गत शेयर बाजारों के साथ दर्ज तिमाही/नौ माह के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही/नौ माह के वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप शेयर बाजारों की वेबसाइट (BSE: www.bseindia.com और NSE: www.nseindia.com) तथा बैंक वेबसाइट (https://punjabandsindbank.co.in) पर उपलब्ध है।

2. कुल व्यापक आय तथा अन्य व्यापक आय से संबंधित जानकारी दशरथी नहीं गई है क्योंकि भारतीय लेखांकन मानक अभी तक बैंकों पर लागू नहीं है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 15.01.2025

राजीव कार्यपालक निदेशक

रवि मेहरा कार्यपालक निदेशक

मंडल कृपार साहा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

टोल फ्री नं: 1800 419 8300

फोन या ईमेल के माध्यम से अपने इंटरेक्ट बैकिंग ब्योरे, जैसे यूजर आईडी/पासवर्ड या अपने क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के नंबर/सीवीपी/ओटीपी किसी भी साधन साझा ना करें।

ई-मेल: ho.customerexcellence@psb.co.in | वेबसाइट: https://punjabandsindbank.co.in